



स मा चार

रचना टावर योजना की आवास आवंटन की प्रक्रिया आनलाइन
विधान सभा आवास समिति के द्वारा संपन्न करायी गई
शेष रिक्त आवासों की आवंटन प्रक्रिया दो माह में पूर्ण की जावे: रामेश्वर शर्मा
31 अगस्त को रचना टावर भवन का उदघाटन विधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष
श्री रामेश्वर शर्मा एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष
श्री कमलनाथ संसदीय कार्यमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहकारिता मंत्री
श्री अरविंद भदौरिया चित्तिसा शिक्षा मंत्री एवं स्थानीय विधायक
श्री विश्वास सारंग की उपस्थिति में संपन्न होगा

भोपाल : 21 अगस्त, 2020

विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा ने आज रचना टावर योजना के आवास आवंटन की प्रक्रिया के तहत लॉट्री निकाल कर उदघाटन सत्र का प्रारंभ किया। इस अवसर पर आवास समिति के सभापति श्री यशपाल सिंह सिसोदिया एवं सदस्य श्री कुंवर विक्रम सिंह, श्री दिव्यराज सिंह, श्री ठाकुरदास नागवंशी एवं प्रमुख सचिव श्री ए.पी.सिंह सहित आवास संघ एवं विधान सभा के अधिकारी उपस्थित थे।

श्री रामेश्वर शर्मा ने आवंटित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि समाज सेवा का सकल्प लेने वाले जनप्रतिनिधि को स्वयं का आवास बनाना कठिन ही नहीं चुनौतीपूर्ण होता है जो आज आवास प्राप्त करके सफल हुआ है मुझे आशा है कि कल से गणेश चतुर्थी का त्योहार प्रारंभ हो रहा है जिन सदस्यों को आवास आवंटित हुये है वे आधिपत्य प्राप्त कर गृह प्रवेश प्रारंभ करेंगे।

प्रोटेम स्पीकर श्री शर्मा ने रिक्त आवासों की प्रक्रिया दो माह में पूर्ण की जावे इसके भी निर्देश दिये। इस अवसर पर आवास समिति के सभापति श्री यशपाल सिसोदिया ने कहा कि यह योजना लंबे अर्से से प्रारंभ थी मैं प्रारंभ के समय से इस योजना से जुड़ा रहा विधान सभा अध्यक्ष श्री शर्मा जी के प्रयास के चलते यह योजना त्वरितपूर्ण हुई आवास समिति एवं हम सब सदस्य अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं।

श्री यशपाल सिसोदिया ने बताया कि आज के लॉट्री में एच.आई.जी., सीनियर एम.आई.जी., जूनियर एम.आई.जी. की लॉट्री निकाली गई है शेष रिक्त आवासों की आवंटन की प्रक्रिया कर पूर्ण करने का प्रयास आवास संघ द्वारा शीघ्र किया जावे।

वि.स./ज.स./20

(नरेन्द्र मिश्रा)
अवर सचिव